



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 23, 2014/माघ 3, 1935

No.33]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 23, 2014/MAGHA 3, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2014

सं. 06/2014- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 48(अ).— अभिहित प्राधिकारी ने, कोरिया आर.पी. में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “एक्रीलोनीट्रायल बूटाडीन रबर” आयात के मामले में अधिसूचना सं. 15/29/2013-डीजीएडी, तारीख 31 दिसम्बर, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में तारीख 31 दिसम्बर, 2013 के द्वारा प्रकाशित की गई थी, के द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 01/2009-सीमा शुल्क, तारीख 2 जनवरी, 2009, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 5 (अ) तारीख 2 जनवरी, 2009 के द्वारा प्रकाशित के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के संबंध में, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (5) तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरंभ की थी और उक्त टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के तहत, अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क समाप्त होने की तारीख से एक वर्ष और बढ़ाने की सिफारिश की थी;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (5) तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 01/2009-सीमा शुल्क, तारीख 2 जनवरी, 2009 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 5 (अ) तारीख 2 जनवरी, 2009 के द्वारा प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 ds के पश्चात, निम्नलिखित अंतस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

“3. पैराग्राफ 2 में किसी भी बात के बावजूद, यह अधिसूचना, कोरिया गणराज्य में मूलतः उत्पादित अथवा वहां से निर्यात किए गए एक्रिलोनीट्रायल बूटाडीन रबर पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क के संबंध में 1 जनवरी, 2015 तक, जिसमें 1 जनवरी, 2015 की तारीख भी शामिल है, लागू होगी। यदि इस अधिसूचना को इससे पूर्व वापस नहीं ले लिया जाता।”

[फा.सं. 354/179/2002-टीआरयू (भाग-V)]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2014

No. 06/2014-Customs (ADD)

G.S.R. 48 (E).— Whereas, the designated authority vide notification No. 15/29/2013-DGAD dated the 31st December, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 31st December, 2013, has initiated review, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of continuation of anti-dumping duty on ‘Acrylonitrile Butadiene Rubber’, originating in, or exported from Korea RP, imposed *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 01/2009-Customs, dated the 2nd January, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 5(E), dated the 2nd January, 2009, and has requested for extension of anti-dumping duty for a further period of one year, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 01/2009-Customs, dated the 2nd January, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 5(E), dated the 2nd January, 2009, namely: -

In the said notification, after paragraph 2, the following shall be inserted, namely:-

“3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, this notification shall remain in force up to and inclusive of the 1st day of January, 2015, with respect to anti-dumping duty on Acrylonitrile Butadiene Rubber originating in, or exported from Korea RP, unless revoked earlier”.

[F.No.354/179/2002-TRU (Pt-V)]

RAJ KUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2014

सं0 07/2014-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 49(अ).— अभिहीत प्राधिकारी ने, चीन जनवादी गणराज्य और इंडोनेशिया में मूलतः उद्भूत या वहां से निर्यात किए गए, 2 एम एम से 12 एमएम तक की मोटाई (दोनों शामिल) के स्वच्छ और रंगीन किस्म (हरे ग्लास को छोड़कर) फ्लोट ग्लास जिसमें सजावटी, औद्योगिक अथवा आटोमेटिव प्रयोजनों के लिए परावर्तक ग्लास, संसाधित ग्लास शामिल नहीं है। (जिसे इसके पश्चात संबद्ध माल भी कहा गया है) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं. 7005 के अंतर्गत आता है, जिस पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 4/2009 सीमा शुल्क, तारीख 6 जनवरी, 2009 सा.का.नि. 14 (अ) तारीख 6 जनवरी, 2009 के तहत प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया गया था, के आयात के मामले में भारत के राजपत्र असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 3 जनवरी, 2014 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 15/24/2013-डीजीएडी, तारीख 3 जनवरी, 2014 के तहत, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिपाटन शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम 1995 (जिसे इसके पश्चात "उक्त नियम" भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत, प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरंभ की है और समीक्षा के संपन्न होने तक प्रतिपाटन शुल्क को इसके समाप्ति की तारीख से एक साल की अवधि तक बढ़ाने की सिफारिश की है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त नियम के नियम 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 4/2009-सीमा शुल्क, तारीख 6 जनवरी, 2009 भारत के राजपत्र, सा.का.नि. 14(अ) तारीख 6 जनवरी, 2009 के द्वारा प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“3. पैराग्राफ 2 में निहित के बावजूद यह अधिसूचना 5 जनवरी, 2015 जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक प्रभावी रहेगी, यदि पहले विखंडित न किया जाये।”

[फा.सं. 354/211/2002-टीआरयू (भाग-II)]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 4/2009- सीमा शुल्क, तारीख 6 जनवरी, 2009, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 14 (अ) तारीख 6 जनवरी, 2009 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 51/2009-सीमा शुल्क, तारीख 22 मई, 2009 जो सा.का.नि. 352 (अ), तारीख 22 मई, 2009 के द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2014

No. 07/2014-Customs (ADD)

G.S.R. 49 (E).— Whereas, the designated authority vide notification No. 15/24/2013-DGAD, dated the 3rd January 2014, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 3rd January 2014, has initiated review, in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm (both inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including reflective glass, processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes falling under heading 7005 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975, originating in, or exported from, China PR and Indonesia imposed *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 4/2009-Customs, dated the 6th January, 2009 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.14 (E), dated the 6th January, 2009, and has requested for extension of anti-dumping duty for a further period of one year, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 4/2009-Customs, dated the 6th January, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.14 (E), dated the 6th January, 2009, namely: -

In the said notification, after paragraph 2, the following shall be inserted, namely: -

“3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2 this notification shall remain in force up to and inclusive of the 5th day of January, 2015, unless revoked earlier”.

[F.No.354/211/2002-TRU (Pt-II)]

RAJ KUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

Note.- The principal notification No. 4/2009-Customs, dated the 6th January, 2009 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 14(E) dated the 6th January, 2009 and was last amended *vide* notification No-. 51/2009-Customs dated the 22nd May, 2009 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.352 (E) dated the 22nd May, 2009.